



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ 1944 (श0)
(सं0 पटना 365) पटना, सोमवार, 13 जून 2022

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

13 जून 2022

सं० बी1-3-45/2022-50—राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के अवसर पर रिटर्निंग ऑफिसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-479/3/2022(I) दिनांक 13.06.2022 तथा अधिसूचना संख्या-479/3/2022(II) दिनांक 13.06.2022 एवं अधिसूचना संख्या-479/3/2022 (III) दिनांक 13.06.2022 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव -सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 13 जून 2022 ज्येष्ठ 23 1944 (शक)

सं. 479/3/2022(I):- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, महासचिव राज्य सभा, संसद भवन, नई दिल्ली को, राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के लिए एतद्वारा रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है।

आदेश से,
नरेन्द्र ना. बुटोलिया,
वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001/Dated: 13th June, 2022
Jyaishta 23, 1944 (Saka)

No. 479/3/2022(I) – In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India, in consultation with the Central Government, hereby appoints the Secretary General to the Rajya Sabha, Parliament House, New Delhi, to be the Returning Officer for the Presidential Election, 2022.

By Order,
NARENDRA N. BUTOLIA,
SR. PRINCIPAL SECRETARY.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 13 जून 2022 ज्येष्ठ 23 1944 (शक)

सं० 479/3/2022(II)—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, आयोग की अधिसूचना संख्या 479/3/2022(III) दिनांक 13 जून 2022 द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली के निम्नलिखित अधिकारियों को राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय में एतद्वारा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है;

- (1) श्री मुकुल पांडे, विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), राज्यसभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001
- (2) श्री सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, राज्यसभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001

आदेश से,
नरेन्द्र ना० बुटोलिया,
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001/Dated: 13th June, 2022
Jyaishta 23, 1944 (Saka)

No. 479/3/2022(II) – In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India, hereby appoints, in addition to the Officers appointed vide the Commission's notification No. 479/3/2022 (III) dated 13th June, 2022, the following Officers of the Rajya Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi, to be the Assistant Returning Officers at Headquarters of the Returning Officer for the Presidential Election, 2022:

- (1) Shri Mukul Pande, Officer on Special Duty (OSD), Rajya Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi-110001.
- (2) Shri Surendra Kumar Tripathi, Joint Secretary and Chief Vigilance Officer, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi-110001.

By Order,
NARENDRA N. BUTOLIA,
SR. PRINCIPAL SECRETARY.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 13 जून 2022 ज्येष्ठ 23 1944 (शक)

सं. 479/3/2022(III):- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, आयोग की दिनांक 13 जून 2022 की अधिसूचना सं. 479/3/2022(II) द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त, राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के लिए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित अधिकारियों को नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी की विधान सभाओं के परिसर में सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में नियुक्त करता है:

सारणी

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	आन्ध्र प्रदेश	श्री के. राजा कुमार, राज्य विधानमंडल के उप सचिव, आन्ध्र प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश विधानमंडल सचिवालय, विधान सभा भवन, ब्लॉक सं. 6, वेलागुडी-522503, गुंटूर जिला
		श्रीमती आर. वनिता रानी, राज्य विधानमंडल के उप सचिव, आन्ध्र प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश विधानमंडल सचिवालय, विधान सभा भवन, ब्लॉक सं. 6, वेलागुडी-522503, गुंटूर जिला
2.	अरुणाचल प्रदेश	श्री कागो हबुंग, सचिव, विधान सभा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर-791111
		श्रीमती तदर मीना, अपर सचिव, विधान सभा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर-791111
3.	असम	श्री दुलाल पेगु, सचिव, असम विधान सभा सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी-781006
		श्री राजीब भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव, असम विधान सभा सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी-781006
4.	बिहार	श्री पवन कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
		श्री अनिल कुमार जायसवाल, उप सचिव बिहार विधान सभा, पटना
5.	छत्तीसगढ़	श्री दिनेश शर्मा, सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री दिनेश त्रिवेदी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा
6.	गोवा	श्रीमती नम्रता उलमान, सचिव, गोवा विधानमंडल सचिवालय श्री हरक्यूलिस नोरोन्हा, संयुक्त सचिव, गोवा विधानमंडल सचिवालय
7.	गुजरात	श्री सी.बी.पंड्या, उप सचिव, गुजरात विधानमंडल सचिवालय, विट्ठलभाई पटेल भवन, सेक्टरसं.10, गांधीनगर, पिन-382010 श्रीमती रीटा मेहता, उप सचिव, गुजरात विधानमंडल सचिवालय, विट्ठलभाई पटेल भवन, सेक्टरसं.10, गांधीनगर, पिन-382010
8.	हरियाणा	श्री राजेंद्र कुमार नांदल, सचिव, हरियाणा विधान सभा, विधान भवन, सेक्टर-1, चंडीगढ़ श्री विष्णु देव, अवर सचिव, हरियाणा विधान सभा, विधान भवन, सेक्टर-1, चंडीगढ़
9.	हिमाचल प्रदेश	श्री यश पॉल शर्मा, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171004 श्री संजीव गुप्ता, उप सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171004

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
10.	झारखण्ड	श्री सैयद जावेद हैदर, प्रभारी सचिव झारखंड विधान सभा, रांची
		श्री राम निवास दास, संयुक्त सचिव, झारखंड विधान सभा, रांची
11.	कर्नाटक	श्रीमती एम. के. विशालाक्षी, सचिव (आई/सी), कर्नाटक विधान सभा, पोस्ट बॉक्स सं. 5074, सं. 121, प्रथम तल, विधान सौध, बेंगलुरु-560233
		श्री बी. एस. महालिंगेश, उप सचिव, कर्नाटक विधान सभा पोस्ट बॉक्स सं. 5074, सं. 127/बी, प्रथम तल, विधान सौध, बेंगलुरु- 560233
12.	केरल	श्रीमती कविता उन्नीथन, अपर सचिव, केरल विधानमंडल सचिवालय, कक्ष सं. 806, चतुर्थ तल, प्रशासनिक भवन, विधानमंडल परिसर, तिरुवनंतपुरम, पिन-695033
		श्री के. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव, केरल विधानमंडल सचिवालय, कक्ष सं. 104, भू तल, प्रशासनिक भवन, विधानमंडल परिसर, तिरुवनंतपुरम, पिन-695033
13.	मध्य प्रदेश	श्री अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल-462004 (म.प्र.)
		श्री भगवतदीन सिंह परस्ते, अपर सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल-462004 (म.प्र.)
14.	महाराष्ट्र	श्री राजेंद्र जी. भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधायी सचिवालय, विधान भवन, बैकबे रिकलेमेशन, मुंबई-400032
		श्री रुतुराज जे. कुदतारकर, उप सचिव, महाराष्ट्र विधायी सचिवालय, विधान भवन, बैकबे रिकलेमेशन, मुंबई-400032

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
15.	मणिपुर	श्री के. मेघजीत सिंह, सचिव, मणिपुर विधान सभा, चिंगमीरोंग, इम्फाल पश्चिम-795001
		श्री रोहित सापम, अपर सचिव, मणिपुर विधान सभा, चिंगमीरोंग, इम्फाल पश्चिम-795001
16.	मेघालय	श्रीमती आई.च. मोमिन, सचिव, मेघालय विधान सभा सचिवालय, एम.जी. रोड, पुलिस बाजार, पूर्वी खासी हिल्स जिला, मेघालय, शिलांग-793001
		श्रीमती ओ. खर्मुजाई, संयुक्त सचिव, मेघालय विधान सभा सचिवालय, एम.जी. रोड, पुलिस बाजार, पूर्वी खासी हिल्स जिला, मेघालय, शिलांग-793001
17.	मिजोरम	श्री एच. लालरिनवमा, आयुक्त एवं सचिव, मिजोरम विधान सभा
		श्री लल्हामहरुइया जोटे, अपर सचिव, मिजोरम विधान सभा
18.	नागालैंड	श्रीमती खरुओहितोनुओ रियो, अपर सचिव, नागालैंड विधान सभा सचिवालय, कोहिमा-797001, नागालैंड
		श्री दारहू शुपाओ, संयुक्त सचिव, नागालैंड विधान सभा सचिवालय, कोहिमा-797001, नागालैंड
19.	ओडिशा	श्री रघुराम आर. अय्यर, ओएस (एसएजी), राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष सचिव, ओडिशा
		श्री रंगधर मल्लिक, अवर सचिव, ओडिशा विधान सभा, भुवनेश्वर, ओडिशा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
20.	पंजाब	श्री सुरिंदर पाल, सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़
		श्री राम लोक खटाना, संयुक्त सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़
21.	राजस्थान	डॉ. जोगा राम, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
		श्री विनोद कुमार मिश्रा, मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी, राजस्थान विधान सभा
22.	सिक्किम	श्री ललित कुमार गुरुंग, विशेष सचिव, सिक्किम विधान सभा सचिवालय, नामनांग, गंगटोक, सिक्किम-737101
		श्री कर्मा टी. ग्यात्सो, विशेष सचिव, सिक्किम विधान सभा सचिवालय, नामनांग, गंगटोक, सिक्किम-737101
23.	तमिलनाडु	डॉ. के. श्रीनिवासन, सचिव, तमिलनाडु विधान सभा सचिवालय, चेन्नई-600009
		श्रीमती आर. सांथी, संयुक्त सचिव, तमिलनाडु विधान सभा सचिवालय, चेन्नई-600009
24.	तेलंगाना	श्री सीएच. उपेंद्र रेड्डी, संयुक्त सचिव, राज्य विधानमंडल, तेलंगाना विधानमंडल सचिवालय, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद-500004
		श्रीमती वी. एन. प्रसन्ना कुमारी, उप सचिव, राज्य विधानमंडल, तेलंगाना विधानमंडल सचिवालय, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद-500004
25.	त्रिपुरा	श्री. सुडथुईफू मोग, टीसीएस, एसएसजी
		श्री अब्दुल रहमान, मुख्य प्रलेखन अधिकारी, त्रिपुरा विधान सभा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
26.	उत्तराखण्ड	श्री मुकेश सिंघल, सचिव, कमरा संख्या 303, विधान सभा भवन, देहरादून
		श्री चंद्र मोहन गोस्वामी, संयुक्त सचिव, कमरा संख्या 307, विधान सभा भवन, देहरादून
27.	उत्तर प्रदेश	श्री बृज भूषण दुबे, विशेष सचिव, विधान सभा, विधान भवन, लखनऊ-226001(उत्तर प्रदेश)
		श्री अजीत कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, विधान सभा, विधान भवन, लखनऊ-226001(उत्तर प्रदेश)
28.	पश्चिम बंगाल	श्री सुप्रतिम भट्टाचार्य, सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा
		श्रीमती स्वस्ति आचार्य, संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	श्री राज कुमार, सचिव, दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
		श्री सी. वेलमुरुगन, संयुक्त सचिव, दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
30.	पुडुचेरी	श्री आर. मुनिसैमी, सचिव, विधान सभा सचिवालय, विक्टर सिमोनल स्ट्रीट, पुडुचेरी - 605001
		श्रीमती एन. अलामेलु, वाद-विवाद का संपादक (एडिटर ऑफ डिबेट्स), विधान सभा सचिवालय, विक्टर सिमोनल स्ट्रीट, पुडुचेरी - 605001

आदेश से,
नरेन्द्र ना. बुटोलिया,
वरिष्ठ प्रधान सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001/Dated: 13th June, 2022
Jyaistha 23, 1944 (Saka)

No. 479/3/2022 (III) – In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India, hereby appoints, in addition to the Officers appointed vide the Commission's notification No. 479/3/2022 (II) dated 13th June, 2022, the Officers mentioned in column (3) of the TABLE below as the Assistant Returning Officers for the Presidential Election, 2022, at the premises of the Legislative Assemblies of the States, NCT of Delhi and UT of Puducherry mentioned in column (2) of the TABLE below:

TABLE

Sl. No	State/Union Territory	Officers appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
1.	Andhra Pradesh	Sh. K. Raja Kumar, Deputy Secretary to State Legislature, Andhra Pradesh, A.P. Legislature Secretariat, Assembly Buildings, Block No. 6, Velagapudi-522503, Guntur District
		Smt. R. Vanitha Rani, Deputy Secretary to State Legislature, Andhra Pradesh, A.P. Legislature Secretariat, Assembly Buildings, Block No. 6, Velagapudi-522503, Guntur District
2.	Arunachal Pradesh	Sh. Kago Habung, Secretary, Legislative Assembly Arunachal Pradesh, Itanagar - 791111
		Smt. Tadar Meena, Additional Secretary, Legislative Assembly Arunachal Pradesh, Itanagar - 791111
3.	Assam	Sh. Dulal Pegu, Secretary, Assam Legislative Assembly Secretariat, Dispur, Guwahati - 781006
		Sh. Rajib Bhattacharyya, Joint Secretary, Assam Legislative Assembly Secretariat, Dispur, Guwahati - 781006
4.	Bihar	Sh. Pawan Kumar Pandey, Joint Secretary, Bihar Legislative Assembly, Patna
		Sh. Anil Kumar Jaiswal, Deputy Secretary, Bihar Legislative Assembly, Patna

Sl. No	State/Union Territory	Officers appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
5.	Chhattisgarh	Sh. Dinesh Sharma Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly
		Sh. Dinesh Trivedi Under Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly
6.	Goa	Smt. Namrata Ulman, Secretary, Goa Legislature Secretariat
		Sh. Hercules Noronha, Joint Secretary, Goa Legislature Secretariat
7.	Gujarat	Sh. C.B. Pandya, Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Viththalbhai Patel Bhavan, Sector No. 10, Gandhinagar, pin-382010
		Smt. Reeta Mehta, Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Viththalbhai Patel Bhavan, Sector No. 10, Gandhinagar, pin-382010
8.	Haryana	Sh. Rajender Kumar Nandal, Secretary, Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Sector-1, Chandigarh
		Sh. Vishnu Dev, Under Secretary, Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Sector-1, Chandigarh
9.	Himachal Pradesh	Sh. Yash Paul Sharma, Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Shimla-171004
		Sh. Sanjeev Gupta, Deputy Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Shimla-171004
10.	Jharkhand	Sh. Syed Jawed Haider, Secretary-In-Charge, Jharkhand Legislative Assembly, Ranchi
		Sh. Ram Niwas Das, Joint Secretary, Jharkhand Legislative Assembly, Ranchi

Sl. No	State/Union Territory	Officers appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
11.	Karnataka	Smt. M.K. Vishalakshi, Secretary (I/C), Karnataka Legislative Assembly, P.B.No.5074, No. 121, 1st Floor, Vidhana Soudha, Bengaluru – 560 233
		Sh. B.S. Mahalingesh, Deputy Secretary, Karnataka Legislative Assembly P.B.No.5074, No. 127/B, 1st Floor, Vidhana Soudha, Bengaluru – 560 233
12.	Kerala	Smt. Kavitha Unnithan, Additional Secretary, Kerala Legislature Secretariat, Room No. 806, IVth Floor, Administrative Building, Legislature Complex, Thiruvananthapuram, Pin - 695033
		Sh. K. Suresh Kumar, Joint Secretary, Kerala Legislature Secretariat, Room No. 104, Ground Floor, Administrative Building, Legislature Complex, Thiruvananthapuram, Pin - 695033
13.	Madhya Pradesh	Sh. Awadhesh Pratap Singh, Principal Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat, Bhopal-462004 (M.P.)
		Sh. Bhagwatdeen Singh Paraste, Additional Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat, Bhopal-462004 (M.P.)
14.	Maharashtra	Sh. Rajendra G. Bhagwat, Principal Secretary, Maharashtra Legislative Secretariat, Vidhan Bhavan, Backbay Reclamation, Mumbai – 400 032
		Sh. Ruturaj J. Kudtarkar, Deputy Secretary, Maharashtra Legislative Secretariat, Vidhan Bhavan, Backbay Reclamation, Mumbai – 400 032
15.	Manipur	Sh. K. Meghajit Singh, Secretary, Manipur Legislative Assembly, Chingmeirong, Imphal West - 795001
		Sh. Rohit Sapam, Additional Secretary, Manipur Legislative Assembly, Chingmeirong, Imphal West - 795001

Sl. No	State/Union Territory	Officers appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
16.	Meghalaya	Smt. I. Ch. Momin, Secretary, Meghalaya Legislative Assembly Secretariat, M.G. Road, Police Bazar, East Khasi Hills District, Meghalaya, Shillong-793001
		Smt. O. Kharmujai, Joint Secretary, Meghalaya Legislative Assembly Secretariat, M.G. Road, Police Bazar, East Khasi Hills District, Meghalaya, Shillong-793001
17.	Mizoram	Sh. H. Lalrinawma, Commissioner & Secretary, Mizoram Legislative Assembly
		Sh. Lalhmahruaia Zote, Additional Secretary, Mizoram Legislative Assembly
18.	Nagaland	Smt. Khruohituonuo Rio, Additional Secretary, Nagaland Legislative Assembly Secretariat, Kohima-797001, Nagaland
		Sh. Darhu Shupao, Joint Secretary, Nagaland Legislative Assembly Secretariat, Kohima-797001, Nagaland
19.	Odisha	Sh. Raghuram R. Iyer, OAS (SAG), Special Secretary to State Election Commission, Odisha
		Sh. Rangadhar Mallick, Under Secretary, Odisha Legislative Assembly, Bhubaneswar, Odisha
20.	Punjab	Sh. Surinder Pal, Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Sector-1, Chandigarh
		Sh. Ram Lok Khatana, Joint Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Sector-1, Chandigarh
21.	Rajasthan	Dr. Joga Ram, Secretary to Government, Local Self Government, Rajasthan, Jaipur
		Sh. Vinod Kumar Mishra, Chief Research & Reference Officer, Rajasthan Legislative Assembly
22.	Sikkim	Sh. Lalit Kumar Gurung, Special Secretary, Sikkim Legislative Assembly Secretariat, Namnang, Gangtok, Sikkim-737101

Sl. No	State/Union Territory	Officers appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
		Sh. Karma T. Gyatso, Special Secretary, Sikkim Legislative Assembly Secretariat, Namnang, Gangtok, Sikkim-737101
23.	Tamil Nadu	Dr. K. Srinivasan, Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat, Chennai-600009
		Smt. R. Santhi, Joint Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat, Chennai- 600009
24.	Telangana	Sh. Ch. Upender Reddy, Joint Secretary, State Legislature, Telangana Legislature Secretariat, Public Gardens, Hyderabad- 500 004
		Smt. V. N. Prasanna Kumari, Deputy Secretary, State Legislature, Telangana Legislature Secretariat, Public Gardens, Hyderabad- 500 004
25.	Tripura	Sh. Suithuifru Mog, TCS, SSG
		Sh. Abdul Rahaman, Chief Documentation Officer, Tripura Legislative Assembly
26.	Uttarakhand	Sh. Mukesh Singhal, Secretary, Room No. 303, Vidhan Sabha Bhawan, Dehradun.
		Sh. Chandra Mohan Goswami, Joint Secretary, Room No, 307, Vidhan Sabha Bhawan, Dehradun.
27.	Uttar Pradesh	Sh. Brij Bhushan Dubey, Special Secretary, Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Lucknow – 226001 (Uttar Pradesh)
		Sh. Ajeet Kumar Sharma, Joint Secretary, Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Lucknow – 226001 (Uttar Pradesh)
28.	West Bengal	Sh. Supratim Bhattacharya, Secretary, West Bengal Legislative Assembly
		Smt. Swasti Acharya, Joint Secretary, West Bengal Legislative Assembly

Sl. No	State/Union Territory	Officers appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
29.	NCT of Delhi	Sh. Raj Kumar, Secretary, Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054.
		Sh. C. Velmurugan, Joint Secretary, Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054
30.	Puducherry	Sh. R. Mounissamy, Secretary, Legislative Assembly Secretariat, Victor Simonel Street, Puducherry - 605001
		Smt. N. Alamelu, Editor of Debates, Legislative Assembly Secretariat, Victor Simonel Street, Puducherry - 605001

By Order,
NARENDRA N. BUTOLIA,
SR. PRINCIPAL SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 365-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>